



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 390]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 13, 2001/ज्येष्ठ 23, 1923

No. 390]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 13, 2001/JYAISTHA 23, 1923

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2001

का. आ. 516(अ).— जीवजन्तु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 5क के उपखण्ड (1) के साथ पठित उपखण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड का निम्नलिखित व्यक्तियों को इसके सदस्यों के रूप में सम्मिलित करके इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से पुनर्गठन करती है।

1. वन महानिरीक्षक,
पर्यावरण और वन मंत्रालय,
नई दिल्ली। ...धारा 5 (1) (क) के अधीन सदस्य।
2. पशु पालन आयुक्त,
कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली। ..धारा 5 (1) (ख) के अधीन सदस्य।
3. श्री एम.पी. सज्जानी,
निदेशक (ए एण्ड वी)
गृह मंत्रालय, नई दिल्ली। धारा 5 (1) (खक) के अधीन सदस्य।

4. श्रीमती एल. इंदुमती, ...धारा 5 (1) (खक) के अधीन सदस्य ।
उप सचिव,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
नई दिल्ली ।
5. सदस्य सचिव, ..धारा 5(1) (ख ख) के अधीन सदस्य।
केन्द्रीय वन्य प्राणी प्राधिकरण
नई दिल्ली ।
6. श्री न्यायाधीश गूमान मल लोढ़ा, ..धारा 5 (1) (खग) के अधीन सदस्य।
सी-1/15, पंडारा पार्क, नई दिल्ली ।
7. श्री अरविन्द भाई पारेख, .धारा 5 (1) (खग) के अधीन सदस्य।
विनियोग परिवार ट्रस्ट, बी-2/104 वैभव,
जामबली गली, बोरीबली (वेस्ट)
मुम्बई-400 092, महाराष्ट्र ।
8. श्री आर.एस. मान, .धारा 5 (1) (खग) के अधीन सदस्य।
मुख्य सचिव, पंजाब (सेवानिवृत्त)
म.सं0 516, सेक्टर 16, चंडीगढ़-160016
9. डा० सुनीता शास्त्री,धारा 5 (1) (ग) के अधीन सदस्य
संजयगांधी पशु देखभाल केन्द्र
शिवाजी कालेज के निकट,
राजागार्डन, नई दिल्ली ।
10. प्रो. ए.एस. बैस, .धारा 5 (1) (घ) के अधीन सदस्य ।
उप महानिदेशक (चिकित्सा),
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय,
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
नई दिल्ली ।
11. डा० संदीप जैन, ..धारा 5 (1) (घ) के अधीन सदस्य।
2696/ए, किंग पैलेस के पीछे,
सुन्दर नगर, पोस्ट बस्ती जोषेबेल,
लुधियाना- 141007 (पंजाब)
12. नगर निगम का प्रतिनिधि, पुणे ..धारा 5 (1) (ड.) के अधीन सदस्य।
महाराष्ट्र ।
13. नगर निगम का प्रतिनिधि, बंगलौर ...धारा 5 (1) (ड.) के अधीन सदस्य ।
कर्नाटक
14. कम्पेनैट क्रूसैडर्स ट्रस्ट का प्रतिनिधि, ..धारा 5 (1) (च) के अधीन सदस्य।
1/13ए डिस्ट. चान्दनी सेड,
कोलकाता-700 037, पं. बंगाल

15. ब्लू क्रॉस सोसाइटी ऑफ हैदराबाद का प्रतिनिधि, ..धारा 5 (1) (च) के अधीन सदस्य।
959, ए, रोड सं० 48, जुबली हिल्स,
हैदराबाद- 500 033, आंध्र प्रदेश
16. पीपुल फॉर एनीमल्स का प्रतिनिधि, गोवा ..धारा 5 (1) (च) के अधीन सदस्य।
3/4, बीच नेस्ट अपार्ट, मीरामार,
पणजी 403001, गोवा
17. जीव जन्तुओं के प्रति क्रूरता
निवारण समिति का प्रतिनिधि, गोरखपुर ..धारा 5 (1) (छ) के अधीन सदस्य।
विकास भवन, आयुक्त का कार्यालय,
परिसर, गोरखपुर-273004, उत्तर प्रदेश
18. जीव जन्तुओं के प्रति क्रूरता
निवारण समिति का प्रतिनिधि, मुम्बई, ..धारा 5 (1) (छ) के अधीन सदस्य।
डॉ० एस.एस. राव रोड, पार्ले,
मुम्बई - 400 012, महाराष्ट्र।
19. जीव जन्तुओं के प्रति क्रूरता
निवारण समिति का प्रतिनिधि, गुजरात, ..धारा 5 (1) (छ) के अधीन सदस्य।
60, कुंज सोसाइटी, अल्कापुरी,
बडोदरा, 390005, गुजरात
20. श्री केशरी चन्द मेहता, ..धारा 5 (1) (ज) के अधीन सदस्य।
अखिल भारतीय कृषि गोसेवा संघ,
पी.बी.सं० 115, पोस्ट मालेगाँव-423303
जिला नासिक, महाराष्ट्र।
21. सुश्री संगीता गोस्वामी, ..धारा 5 (1) (ज) के अधीन सदस्य।
पीपुल फॉर एनीमल्स, गुवाहाटी,
“गोस्वामीज” नॉर्जन रोड, उजान बाजार,
गुवाहाटी- 781 001, असम।
- 22.. श्री चिन्मै कृष्णा, ..धारा 5 (1) (ज) के अधीन सदस्य।
ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया,
1-ए, एलडाम्स रोड, चेन्नई-600018
तमिलनाडु।
2. केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के अनुसार श्री न्यायधीश
गुमान मल लोढ़ा, सदस्य को भारतीय जीवजन्तु कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष और श्री चिन्मै कृष्णा, सदस्य
को उपाध्यक्ष नामित करती है।

[फा. सं. 11/4/2001-ए.डब्ल्यू.डी.]

धर्मेन्द्र देव, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : भारतीय जीवजन्तु कल्याण बोर्ड के पुनर्गठन संबंधी पहली अधिसूचना भारत के राजपत्र में
का.आ. 495 (ई), दिनांक 9 जून, 1998 के तहत प्रकाशित की गई और बाद में का.आ.778 (ई)
) दिनांक 7 सितम्बर 1998, का.आ. 934 (ई) दिनांक 29 अक्टूबर, 1998, का.आ. 1159 (ई),
का.आ. 651 (ई), दिनांक 10 जुलाई, 2000 और का.आ.959 (ई)

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2001

S.O. 516(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) read with sub-section (1) of section 5A of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Central Government hereby reconstitutes the Animal Welfare Board of India consisting of the following persons as its members, with effect from the date of publication of this notification, namely:—

- | | | |
|------|--|------------------------------------|
| (1) | Inspector General of Forests, Ministry of Environment and Forests, New Delhi. | Member under section 5 (1) (a) |
| (2)) | Animal Husbandry Commissioner, Ministry of Agriculture, New Delhi. | Member under section 5 (1) (b) |
| (3) | Shri M.P. Sajnani, Director (A & V), Ministry of Home Affairs, New Delhi. | Member under section 5 (1) (ba) |
| (4) | Smt. L. Indumathy, Deputy Secretary Ministry of Human Resource Development, Deptt. of Secondary & Higher education, New Delhi. | Member under section 5(1)(ba) |
| (5) | Member –Secretary, Central Zoo Authority, New Delhi. | Member under section 5(1)(bb) |
| (6) | Mr. Justice Guman Mal Lodha, C-1/15, Pandara Park, New Delhi. | Member under section 5 (1) (bc) |
| (7) | Mr. Arvindbhai Parekh, Vinnyog Parivar Trust, B-2/104 Vaibhav, Jambli Gali, Borivali (West), Mumbai – 400 092, Maharashtra. | Member under section 5 (1) (bc) |
| (8) | Mr. R.S. Mann, Chief Secretary, Punjab (Retd.), H.No.516, Sector 16, Chandigarh -160 016. | Member under section 5 (1) (bc) |
| (9) | Dr. Sunita Shasti, Sanjay Gandhi Animal Care Centre, Near Shivaji College, Raja Garden, New Delhi. | Member under section 5 (1) (c) |

- | | | |
|------|---|-----------------------------------|
| (10) | Prof. A.S. Bais, Dy. Director General (Medical), Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi. | Member under section 5 (1) (d) |
| (11) | Dr. Sandeep Jain; 2696/A, Behind King Palace, Sundar Nagar, Post Basti, Jodhebel, Ludhiana - 141 007 (Punjab). | Member under section 5 (1) (d) |
| (12) | A representative of the Municipal Corporation, Pune, Maharashtra. | Member under section 5 (1) (e) |
| (13) | A representative of the Municipal Corporation, Bangalore, Karnataka. | Member under section 5 (1) (e) |
| (14) | A representative of the Compassionate Crusaders Trust, 1/13 A, Dist Chandi Road, Kolkata - 700 037. West Bengal. | Member under section 5 (1) (f) |
| (15) | A representative of the Blue Cross Society of Hyderabad, 959-A, Road No.48, Jubilee Hills, Hyderabad - 500 033, Andhra Pradesh. | Member under section 5 (1) (f) |
| (16) | A representative of the People for Animals, Goa, 3 / 4, Beach Nest Apts, Miramar, Panaji 403 001, Goa. | Member under section 5 (1) (f) |
| (17) | A representative of the Society for the Prevention of Cruelty to Animals, Gorakhpur, Vikas Bhawan, Commissioner's Office Campus, Gorakhpur - 273 004, Uttar Pradesh. | Member under section 5 (1) (g) |
| (18) | A representative of the Society for the Prevention of Cruelty to Animals, Mumbai, Dr. S.S. Rau Road, Parel, Mumbai - 400 012, Maharashtra. | Member under section 5 (1) (g) |
| (19) | A representative of the Society for the Prevention of Cruelty to Animals, Gujarat, 60, Kunj Society, Alkapuri Vadodara - 390 005, Gujarat. | Member under section 5 (1) (g) |
| (20) | Mr. Keshri Chand Mehta, Akhil Bharatiya Krishi Goseva Sangh, P.B.No.115, Post Malegaon - 423 303, Distt. Nasik, Maharashtra. | Member under section 5 (1) (h) |

1826 G/2001-2

- | | | |
|------|---|-----------------------------------|
| (21) | Ms. Sangeeta Goswami, People for Animals, Guwahati, "Goswamis", Nowjan Road, Uzanbazar, Guwahati - 781 001, Assam. | Member under section 5 (1) (h) |
| (22) | Mr. Chinmy Krishna, Blue Cross of India, I-A, Eldams Road, Chennai- 600 018, Tamil Nadu. | Member under section 5 (1) (h) |

2. The Central Government hereby nominates Mr. Justice Guman Mal Lodha, Member to be the Chairman and Shri Chinmy Krishna, Member to be the Vice Chairman of the Animal Welfare Board of India as per sub-section (3) of section 5 of the aforesaid Act,

[F.No. 11/4/2001-AWD]
DHARMENDRA DEO, Jt. Secy.

Note: The earlier notification reconstituting the Animal Welfare Board of India was published in the Gazette of India vide number S.O. 495(E) dated, the 09th June, 1998 and subsequently amended vide number S.O. 788(E) dated, the 07th September, 1998, S.O. 934(E), dated, the 29th October, 1998, S.O. 1159(E), dated, the 16th November, 1999 S.O. 651(E), dated, the 10th July, 2000 and S.O. 959 (E) dated, the 16th October, 2000